



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 399]

नई दिल्ली, बोरवार, दिसम्बर 10, 1981/अग्राहायण 19, 1903

No. 399] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 1981/AGRAHAYANA 19, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विस्तृत मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1981

(सं० 198/81 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

सां० का० नि० 648 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम
और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन)
नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में,—

(क) नियम 64 से 72 तक (जिनमें बांता सम्मिलित है) 74,
76, 78, 79, 80, 82, 98, 99, और 231 में "बैडरोल"
शब्द के स्थान पर जहाँ कहीं बहु आता है, "केन्द्रीय
उत्पाद शुल्क स्टॉप" शब्द रखे जाएंगे और ऐसे अन्य परिणा-
मिक संशोधन भी किए जाएंगे जो व्याकरण के नियमों
द्वारा अपेक्षित हों।

(ख) नियम 76 में, "बैडरोल न लगी हुई दियासलाईयों" शब्दों
के स्थान पर "दियासलाईयों, जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
स्टॉप नहीं लगाई गई है" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) नियम 78 में "बैडरोल न लगी हुई माचिसों" शब्दों के
स्थान पर "दियासलाईयों, जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
स्टॉप नहीं लगाई गई है" शब्द रखे जाएंगे।

(घ) नियम 79 में, "बैडरोल न लगी हुई माचिसों" शब्दों के
स्थान पर "माचिसों जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टॉप
नहीं लगाई गई है" शब्द रखे जाएंगे।

(ङ) नियम 98 में, शीर्षक में, "बैडरोल न लगा हुआ और लेबल
न लगा हुआ सामान" शब्दों के स्थान पर "सामान, जिस
पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टॉप नहीं लगाई गई है और
लेबल न लगाया गया सामान" शब्द रखे जाएंगे;

(च) परिशिष्ट में—

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क श्रृंखलाओं में, "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
श्रृंखलाओं की सूची" "शीर्षक के नीचे 22, 22-क,
23, 40, 72, 73 और 83 में "बैडरोल" शब्द के
स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टॉप" शब्द रखे
जाएंगे;

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क श्रृंखला 22, 22-क, 23
37, 40, 41, 72, 73 और 83 में, "(2) नमूना प्रथम

श्रीरंक के नीचे "बैंडरोल" शब्द के स्थान पर जहाँ कहीं वह आता है "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप" रखे जाएंगे और ऐसे अन्य परिणामिक संशोधन भी किए जाएंगे, जो कि व्याकरण के नियमों द्वारा प्रपेक्षित हों।

फा०सं० 261/38/21/76-सी०एस०8]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 10th December, 1981

No. 198/81-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 648(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (23rd Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944,—

(a) in rules 64 to 72 (both inclusive), 74, 76, 78, 79, 80, 82, 98, 99 and 231, for the word "banderol", wherever it occurs, the words "Central Excise stamp" shall be substituted, and such other consequential amendments as the rules of grammar may require shall also be made;

(b) in rule 76, for the words "Unbandedrolled Matches", the words "Matches Not Affixed with Central Excise Stamp" shall be substituted;

(c) in rule 78, in sub-rule (1), in clause (iii), for the words "unbandedrolled matches", the words "matches not affixed with Central Excise stamp" shall be substituted;

(d) in rule 79, for words "Unbandedrolled matches", the words "Matches not affixed with Central Excise stamp" shall be substituted;

(e) in rule 98, in the heading, for words "Unbandedrolled and unlabelled goods", the words "Goods not affixed with Central Excise stamp and unlabelled goods" shall be substituted;

(f) in Appendix I,—

(i) under the heading "(1) List of Central Excise Forms", in Central Excise Series 22, 22-A, 23, 40, 72, 73 and 83, for the word "banderols", the words "Central Excise stamps" shall be substituted;

(ii) under the heading "(2) Specimen Forms", in Central Excise Series 22, 22-A, 23, 37, 40, 41, 72, 73 and 83, for the word "banderols", wherever it occurs, the words "Central Excise stamps" shall be substituted, and such other consequential amendments as the rules of grammar may require shall also be made.

[F. No. 261/38/21/76-CX. 8]

(सं० 199/81-केन्द्रीय उत्पादन शुल्क)

सा०क्रा०नि० 649(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इसके साथ उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के विमंत्रालय (गजम्ब विभाग)

की प्रत्येक अधिसूचना का उक्त सारणी के स्तम्भ (3) को तत्स्थानी प्रसिद्धि में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा।

सारणी

क्रमसं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	201/79-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 4 जून, 1979	उक्त अधिसूचना के चौथे परम्युक् में "बैंडरोल" शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप" रखे जाएंगे।
2.	99/80 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 19 जून, 1980	उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण के, खण्ड (ख) के उपखण्ड (ब) में, "बैंडरोल लगाता" शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों का लगाया जाना" शब्द रखे जाएंगे।
3.	41/81-के०उ०शु० तारीख 1 मार्च, 1981 42/81-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 1 मार्च, 1981	उक्त प्रत्येक अधिसूचना के पैरा के प्रारम्भिक भाग के खण्ड (vi) में "बैंडरोल लगाता" शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप का लगाया जाना" शब्द रखे जाएंगे।

[फा०सं० 261/38/21/76-सी०एस०-8]

(No. 199/81-Central Excises)

G.S.R. 649(E).—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be further amended, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	201/79-Central Excises, dated the 4th June, 1979.	In the fourth proviso of the said notification, for the word, "banderols", the words, "Central Excise stamps" shall be substituted.
2.	99/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980	In the said notification, in the Explanation, in clause (i) in sub-clause (f), for the word "banderolling", the words "affixing of Central Excise stamps", shall be substituted.
3.	41/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981. 42/81-Central Excise dated the 1st March, 1981.	In each of the said notifications, in paragraph 1, in the opening portion, in clause (vi), for the word "banderolling", the words "affixing of the Central Excise stamps" shall be substituted.

[F. No. 261/38/21/76-ECX.18]

(सं० 200/81-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

No. 200/81-CENTRAL EXCISES

सां०कां०नि० 650(अ)—केन्द्रीय सरकार, उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 197/62 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 17 नवम्बर, 1962 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में 'दियामलाई' से संबंधित क्रम सं० 4 के स्तम्भ (5) में "बैंडरोल" शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप" शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० 261/38/21/76-सी एक्स-8]

जी० एन० भागचरदानी, अवर सचिव

G.S.R. 650(E).—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 197/62-Central Excises, dated the 17th November, 1962, namely :—

In the Table annexed to the said notification, in Serial No. 4 relating to "Matches", in column (5), for the word, "banderols", the words "Central Excise stamps", shall be substituted.

[F. No. 261/38/21/76-CX8]

G. N. BHAGCHANDANI, Under Secy.

